

शिवालिक टाइम्स

जनता की आवाज

डिग्री कॉलेज धामी 16 मील अभिभावक शिक्षक संघ की प्रधान बनी शशी सुमन वर्मा

OCT 8, 2022



राजकीय महाविद्यालय धामी 16 मील में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जनेश कपूर की अध्यक्षता में अभिभावक शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस बैठक में महाविद्यालय के सभी शिक्षक संघ ने भाग लिया और 20 से 25 अभिभावकों ने भी इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

बैठक में सर्वप्रथम शिक्षक संघ के सचिव द्वारा अभिभावक शिक्षक संघ की निधि के आय और व्यय का विस्तृत ब्योरा दिया। अभिभावक शिक्षक संघ के संरक्षक आचार्य डॉक्टर जनेश कपूर ने पिछले शैक्षिक सत्र में पीटीए निधि से किए गए कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में हमने आईटी सेक्शन के लिए कंप्यूटर इत्यादि खरीदें। और इसके अलावा बैठने के लिए बेंच खरीदे गए। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले वर्ष में हम और बेंच खरीदेंगे। उसके उपरांत अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए महाविद्यालय के लिए पीटीए के महत्व पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्राचार्य के संबोधन के बाद आगामी शैक्षणिक सत्र 2022- 23 के लिए अभिभावक शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।

जिसमें संघ के प्रधान श्रीमति शशि वर्मा, सचिव डॉक्टर किशोरी लाल चंदेल, उपप्रधान श्री रमेश, संयुक्त सचिव नीलम शर्मा और कोषाध्यक्ष डॉ राजीव शर्मा को बनाया गया। संघ के संरक्षक प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धामी डॉक्टर जनेश कपूर रहेंगे। नई कार्यकारिणी में विनोद कुमार गीता देवी अंकित शर्मा और मीना शर्मा को अभिभावक सदस्य नियुक्त किया गया बैठक में आगामी सत्र के लिए कुछ प्रस्ताव भी रखे गए जिसमें नई कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया बैठक में अंत में अभिभावकों का विद्यालय की तरफ से डॉ अनीता शर्मा ने धन्यवाद किया।